



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022025-260853
CG-DL-E-08022025-260853

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2025/माघ 18, 1946

No. 639]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2025/MAGHA 18, 1946

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

का.आ. 643(अ).— केंद्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33ण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप संशोधन करने का प्रस्ताव करती है और तदनुसार, उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप संशोधनों पर, जब इस अधिसूचना की प्रतियां, राजपत्र में यथा प्रकाशित रूप में जनसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं, के तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उसकी समाप्ति के पश्चात्, विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, उक्त की समाप्ति से पूर्व, किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, आयुष मंत्रालय आयुष भवन, 'बी' ब्लाक, जीपीओ कांप्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023 या ईमेल से डीसीसी-आयुष@एनआईसी.इनको भेजे जाएं।

प्रारूप संशोधन

1. ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की पहली अनुसूची और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“पहली अनुसूची

[नियम 3(क) देखें]

क- आयुर्वेदिक औरसिद्धा प्रणाली

आयुर्वेदिक प्रणाली

| क्र. सं. | पुस्तक का नाम (रोमन लिपि में) | मूल लेखक का नाम |
|----------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | अभिधानमञ्जरी | भिषगार्य |
| 2. | अभिनवचिकित्सारत्नाकरमु (तेलुगु) | पलंकिसूर्यनारायणकवि |
| 3. | अभिनवचिन्तामणि | चक्रपाणिदास |
| 4. | अगस्त्यप्रोक्त वैद्यशास्त्रमु (तेलुगु) | स्वरूपानन्दस्वामी |
| 5. | अलतूरमणिप्रवालम् | गोविन्दवैद्यर् |
| 6. | आनन्दकन्द | मन्थानभैरव |
| 7. | आन्ध्रभैषज्यरत्नावली | श्रीपादकृष्णमूर्ति |
| 8. | आन्ध्रवैद्यचिन्तामणि (तेलुगु) | देवुलपल्लिवेंकटरसामन्त्री |
| 9. | अनुभवपशुवैद्यचिन्तामणि (तेलुगु) | येजेल्लश्रीरामुलुचौदरि |
| 10. | अनुभवचिकित्सादर्पणमु (तेलुगु) | मुन्नैयालोकराजु |
| 11. | अनुपान-मञ्जरी | आचार्यविश्राम |
| 12. | अर्कप्रकाश | रावण |
| 13. | आरोग्यकल्पद्रुमम् | कैकुलंगर रामवर्यर् |
| 14. | आर्यभिषक् (मराठी) | शास्त्री शंकर दाजी पदे |
| 15. | अष्टाङ्गहृदय | वाग्भट |
| 16. | अष्टाङ्ग-निघण्टु | वाहटाचार्य |
| 17. | अष्टाङ्गसङ्ग्रह | वाग्भट |
| 18. | अश्वचिकित्सा (हिन्दी) | जयपाल सिंह |
| 19. | अश्वचिकित्सितम् | श्री नकुल |
| 20. | अश्व-शास्त्रम् | नकुल |
| 21. | अश्ववैद्यकम् | श्री जयदत्त |
| 22. | आयुर्वेद औषध रत्नाकर | श्रीपाद कृष्णमूर्ति शास्त्री |
| 23. | आयुर्वेदवैद्यसङ्ग्रहमु (तेलुगु) | पि. सि. अय्यवरप्पया |
| 24. | आयुर्वेदचिन्तामणि | बलदेव प्रसाद मिश्र |
| 25. | आयुर्वेदप्रकाश | माधव |
| 26. | आयुर्वेदसङ्ग्रह | देवेन्द्रनाथ सेन गुप्ता एवं उपेन्द्रनाथ सेन गुप्ता |
| 27. | आयुर्वेदसारसङ्ग्रह | अज्ञात |

| | | |
|-----|---|------------------------------------|
| 28. | आयुर्वेदवैद्यसारम् (तेलुगु) | त्रिपुरारि मार्कण्डेयुलु |
| 29. | आयुर्वेदविज्ञान, भाग 1-2 | विनोद दास गुप्ता |
| 30. | आयुर्वेदीय औषधिगुणधर्मशास्त्र (मराठी) | श्री गंगाधर शास्त्री गुणे |
| 31. | आयुर्वेदीय औषधीकरण (आगम अणि प्रत्यक्ष) (भाग- 1-2) (मराठी) | पी. वी. धामणकर एवं जी. वी. पुराणिक |
| 32. | बसवराजीयम् / वसवराजीयम् | बसवराज |
| 33. | भैषज्यरत्नावली | गोविन्द दास सेन |
| 34. | भारत-भैषज्य-मञ्जरी | चिबुकुल सत्यनारायण शास्त्री |
| 35. | भारत-भैषज्य-रत्नाकर | नगीनदास छगनलाल शाह |
| 36. | भस्मप्रदीपिका | दवलेश्वरपु सोमलिंगाचार्युलु |
| 37. | भस्मविज्ञान | हरिशरणानन्द वैद्य |
| 38. | भावप्रकाश-निघण्टुपरिशिष्ट | आचार्य के. सी. चुणेकर |
| 39. | भावप्रकाश-संहिता | भावमिश्र |
| 40. | भेल-संहिता | भेल |
| 41. | भेषजकल्प | भारद्वाज |
| 42. | भेषजसंहिता | गुजरात सरकार |
| 43. | भिषङ्गुणि (तेलुगु) | पिन्नेलि नरसिंहकवि |
| 44. | भोजनकुतूहल | श्री रघुनाथ |
| 45. | बृहद् (/बृहत्)-रसराजसुन्दर | दत्त राम चौबे |
| 46. | बृहद्(/बृहत्)-योगतरङ्गिणी | त्रिमल्ल भट्ट |
| 47. | बृहद्वैद्यरत्नाकर | तेन्मठम्-वेंकटनरसिंहाचार्युलु |
| 48. | बृहत् निघण्टु / बृहद्विघण्टु रत्नाकर | दत्तराम |
| 49. | चक्रदत्त | चक्रपाणिदत्त |
| 50. | चमत्कार-निघण्टु | अज्ञात |
| 51. | चरक-संहिता | अग्निवेश |
| 52. | चारुचर्या | भोजराज |
| 53. | चिकित्सा प्रभाकर (मराठी) | प्रभाकर बालाजी ओगले |
| 54. | चिकित्सादर्पणम् (तेलुगु) | भागनगरम्-गुरुलिंगदेवर |
| 55. | चिकित्साकलिका | तीसटाचार्य |
| 56. | चिकित्सा-कौस्तुभम् | अज्ञात |
| 57. | चिकित्सामञ्जरी (मलयालम्) | अज्ञात |
| 58. | चिकित्सा-प्रदीप | भास्कर विश्वनाथ गोखले |
| 59. | चिकित्सारत्नम् | जयकृष्ण दास |
| 60. | चिकित्सासङ्ग्रहम् (मलयालम्) | पी. एस. वारियर |

| | | |
|-----|--------------------------------|--|
| 61. | चिकित्सासार | गोपालदासु |
| 62. | धन्वन्तरि-निघण्टु | महेन्द्रभौगिक |
| 63. | धन्वन्तरि-सारनिधि | अज्ञात |
| 64. | धन्वन्तरि-शेष | अज्ञात |
| 65. | धन्वन्तरि-वैद्यलहरी (तेलुगु) | ग्रन्धि वेंकट सुब्बराय गुप्त |
| 66. | धन्वन्तरि-विजयमु (तेलुगु) | योगी छिन बैरागी |
| 67. | द्रव्यगुण-सङ्ग्रह | चक्रपाणि दत्त |
| 68. | द्रव्यगुण-विज्ञान (भाग 1-5) | आचार्य प्रो. पी. वी. शर्मा |
| 69. | गदनिग्रह | शोढल |
| 70. | घृतरङ्ग(भैषज्यरत्नाकरान्तर्गत) | पुव्वडु रामचन्द्रराव पन्तुलु द्वारा संग्रहित |
| 71. | गोधन वर्धिनी (हिन्दी) | जयपाल सिंह |
| 72. | हारीत-संहिता | हारीत |
| 73. | हस्त्यायुर्वेद | पालकाप्य |
| 74. | हृदयदीपक-निघण्टु | बोपदेव |
| 75. | जीवाधानरक्षणी (तेलुगु) | अज्ञात |
| 76. | कैयदेव-निघण्टु | कैयदेव |
| 77. | कल्याणकारकम् | उग्रादित्याचार्य |
| 78. | कामकुतूहल | अज्ञात |
| 79. | करिकल्पलता (हिन्दी) | पण्डीत मंगलाचरण दीक्षित |
| 80. | काश्यप-संहिता | वृद्धजीवक |
| 81. | क्रिया कौमुदीवर्ष क्रिया कंद | गोविन्दानन्द |
| 82. | क्षेमकुतूहल | क्षेम शर्मा |
| 83. | कूपीपक्क रस-निर्माण विज्ञान | हरिशरणानन्द वैद्य |
| 84. | कूपीपक्करसायनम् | अज्ञात |
| 85. | लघु-निघण्टु | लोलिम्बराज |
| 86. | लक्ष्मीमोदतरङ्गिणी | गणेश दत्त शास्त्री |
| 87. | लोहसर्वस्वम् | सुरेश्वर |
| 88. | मदनादि-निघण्टु | चन्द्रनन्दन |
| 89. | मदनपाल-निघण्टु | मदनपाल |
| 90. | माधव-चिकित्सा | माधवकर |
| 91. | माधव-द्रव्यगुण | माधवकर |
| 92. | महौषध-निघण्टु | आर्यदास कुमार सिंह |
| 93. | नानाविधवैद्यम् | अज्ञात |
| 94. | नेत्रदर्पण | ताडिपल्लि पनकलराय |

| | | |
|------|--|----------------------------|
| 95. | नेत्रप्रकाशिका | नन्दिकेश्वर |
| 96. | नेत्ररोगचिकित्सा (मलयालम्) | अज्ञात |
| 97. | निघण्टरत्नाकर | विष्णु वासुदेव गोडबोले |
| 98. | निघण्टु आदर्श (भाग1-2) | बापालाल वैद्य |
| 99. | निघण्टु-शेष | हेमचन्द्र सूरि |
| 100. | परहित संहिता | श्री नाथ पण्डित |
| 101. | पथ्यापथ्यविनिश्चय | विश्वनाथ सेन |
| 102. | पेरराजीयम् (तेलुगु) | पण्डित बी. सीताराम राजुलु |
| 103. | फार्माकोपिया (मलयालम्) | अज्ञात |
| 104. | फार्माकोपिया इन् आयुर्वेद | आन्ध्रप्रदेश सरकार |
| 105. | प्रयोगसमुच्चयम् (मलयालम्) | कोचुन्नि तम्पूरन् |
| 106. | प्रियनिघण्टु | आचार्य प्रो. पी. वी. शर्मा |
| 107. | पुलिप्पणी वैद्यशास्त्रम् (तेलुगु) | पूरणम् पिच्चै शास्त्री |
| 108. | राजकीय औषधियोगसङ्ग्रह | रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी |
| 109. | राजमार्तण्ड | भोजराजु |
| 110. | राज-निघण्टु | नरहरि पण्डित |
| 111. | राजवल्लभ-निघण्टु | राजवल्लभ |
| 112. | रसचण्डांशु | दत्त वैद्य |
| 113. | रसहृदयतन्त्रम् | गोविन्द भगवत्पाद |
| 114. | रसजलनिधि | कविराज भूदेब मुखर्जी |
| 115. | रसकामधेनु (भाग I-IV) | श्री चूडामणि |
| 116. | रसकौमुदी | ज्ञानचन्द्रशर्मा |
| 117. | रसमञ्जरी | शालिनाथ |
| 118. | रसमञ्जूषा | द्वारका त्रिपाठी |
| 119. | रसामृतम् | यदवजी त्रिकमजी |
| 120. | रसपद्धति | बिन्दु |
| 121. | रसप्रदीपिका | मुडूम्व वेंकटाचार्य |
| 122. | रसप्रकाशसुधाकर | यशोधर |
| 123. | रसप्रकाशिका | रामकृष्णा शर्मा धाण्ड |
| 124. | रसरत्नाकर (रसखण्ड, रसेन्द्रखण्ड, वादीयाऋद्धिखण्ड, रसायनखण्ड) | नित्यनाथ |
| 125. | रसरत्नाकरम् | कृष्णम्मचार्युलु |
| 126. | रसरत्नसमुच्चय | वाग्भट |
| 127. | रसार्णवमाम रसतन्त्रम् रससंहिता | अज्ञात |

| | | |
|------|--|---|
| 128. | रसतंत्रसार व सिद्ध प्रयोगसंग्रह - भाग 1 (हिन्दी) | अज्ञात |
| 129. | रसतंत्रसार व सिद्ध प्रयोगसंग्रह - भाग 2 (हिन्दी) | अज्ञात |
| 130. | रसतरङ्गिणी | सदानन्द शर्मा |
| 131. | रसायनखण्ड | नित्यनाथ सिद्ध |
| 132. | रसायनसार | श्यामसुन्दराचार्य वैश्य |
| 133. | रसयोगरत्नाकरम् | अज्ञात |
| 134. | रसयोगसागर | पण्डित हरिप्रपन्न शर्मा |
| 135. | रसयोगसङ्ग्रह | अज्ञात |
| 136. | रसेन्द्र-चिन्तामणि | दुण्डुकनाथ |
| 137. | रसेन्द्र-चूडामणि | सोमदेव |
| 138. | रसेन्द्रसारसङ्ग्रह | गोपाल कृष्ण भट्ट |
| 139. | रसोपनिषत् | अज्ञात |
| 140. | रावणकौमारतन्त्र | श्री रावण |
| 141. | रुद्रयामलम् | अज्ञात |
| 142. | सहदेव पशुवैद्य | नारानर्युडु |
| 143. | सहस्रयोगम् (मलयालम्) | अज्ञात |
| 144. | सन्निपातकालिका | वैद्य मन्थान सिंह |
| 145. | सरस्वती-निघण्टु | अज्ञात |
| 146. | सर्वरोगचिकित्सारत्नम् (मलयालम्) | अज्ञात |
| 147. | सर्वयोगचिकित्सानूल् (मलयालम्) | अज्ञात |
| 148. | सौश्रुत-निघण्टु | अज्ञात |
| 149. | शालिहोत्र | नकुल |
| 150. | शालिहोत्र-सङ्ग्रह | केशवसिंहजी |
| 151. | शङ्कर-निघण्टु | शंकर दत्त गौड |
| 152. | शरभराजीयम् (तेलुगु) | तुल्लुरिसरभराज |
| 153. | शाङ्गधर-संहिता | शाङ्गधर |
| 154. | शतभस्मयोगरत्नाकरम् (तेलुगु) | कनकदण्डी सीतारामय्या |
| 155. | शतलेह्यपाकप्रकाशिका (तेलुगु) | एस. ए. टी. एम. श्रीनिवासाचार्युलु अय्यवरुलु |
| 156. | शतलेह्यपाकावली (तेलुगु) | दवलेश्वरपुसोमलिगाचार्युलु |
| 157. | शतश्लोकी | बोपदेव |
| 158. | शिवकोश-निघण्टु | श्री शिवदत्त |
| 159. | शिवनाथसागर | विश्वनाथसिंह योधने |
| 160. | श्री वेङ्कटाद्रिय | तिरुवुरु वेंकटाद्रि |
| 161. | शुष्कपशुवैद्यतमोभास्कर (तेलुगु) | वेणिगल्ल वेंकटप्पय्य |

| | | |
|------|---|------------------------------------|
| 162. | सिद्धभैषज्यमणिमाला | कृष्ण राम भट्ट |
| 163. | सिद्धभैषज्यमञ्जूषा | जयदेव शास्त्री जोशी |
| 164. | सिद्धभेषजसङ्ग्रह | युगल किशोर गुप्ता |
| 165. | सिद्धमन्त्र-निघण्टु | केशव |
| 166. | सिद्धप्रयोगलतिका | गुलराज शर्मा मिश्र |
| 167. | सिद्धसार-निघण्टु | रविगुप्त |
| 168. | सिद्धसार-संहिता | अज्ञात |
| 169. | सिद्धौषधिसङ्ग्रह | गोविन्द अप्पाजी फडके |
| 170. | सिद्धयोगसङ्ग्रह | यादवजि त्रिकमजी |
| 171. | सोढल/शोढल-निघण्टु | शोढल |
| 172. | सुखसाधकम् (मलयालम्) | वैक्कोम् पचुमुततु |
| 173. | सुश्रुत-संहिता | सुश्रुत |
| 174. | द आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी आफ इंडिया / भारतीयआयुर्वेदीययोगसंग्रहएवं इसके भाग | अज्ञात |
| 175. | द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया आफ इंडिया / भारतीयआयुर्वेदीयभेषजसंहिताएवं इसके भाग तथा उनके खण्ड | अज्ञात |
| 176. | वैद्यचन्द्रोदय | त्रिमल्लभट्ट |
| 177. | वैद्यचिकित्सासङ्ग्रह (तेलुगु) | राघवदासु |
| 178. | वैद्यचिन्तामणि | वल्लभाचार्य |
| 179. | वैद्यजीवनम् | लोलिम्बराज |
| 180. | वैद्यचिकित्सासार | कालिदास |
| 181. | वैद्यकल्पद्रुम | रघुनाथप्रसाद शुक्ल द्वारा संग्रहित |
| 182. | वैद्यकल्पद्रुममु (तेलुगु) | चिवुकुल सत्य नारायण शास्त्री |
| 183. | वैद्यकप्रयोगविज्ञानम् | इन्द्रगणि वेंकटेश्वर शर्मा |
| 184. | वैद्यक-सङ्ग्रह | अज्ञात |
| 185. | वैद्यकशब्दसिन्धु | अज्ञात |
| 186. | वैद्यमालिका (मलयालम्) | अज्ञात |
| 187. | वैद्यमनोरमा | कालिदास |
| 188. | वैद्यमनोत्सव | जैन श्रावक नयनसुखदास |
| 189. | वैद्यामृत | मुलुकुट्टल विश्वनाथ शास्त्री |
| 190. | वैद्यरहस्य | विद्यापति भिषगवर |
| 191. | वैद्यरत्न | शिवानन्द भट्ट |
| 192. | वैद्यसारमु (तेलुगु) | रायसामु पेरनार्युडु |
| 193. | वैद्यसारसङ्ग्रह | एम. एस. कृष्णमूर्ति |
| 194. | वैद्यसर्वस्वम् | पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र |

| | | |
|------|---|---|
| 195. | वैद्यशतश्लोकी | अवदानसरस्वती |
| 196. | वैद्यशिरोमणि | जोगिनेनि वेंकटरावु |
| 197. | वैद्यसुधानिधि | पण्डित कन्हैयालाल अग्निहोत्री |
| 198. | वैद्यतारकम् | अज्ञात |
| 199. | वैद्यवल्लभ | हस्तिरुचि कवि |
| 200. | वैद्यविनोद | शंकर शर्मा भट्ट |
| 201. | वैद्ययोगरत्नावली | अज्ञात |
| 202. | वाजिकरकल्पद्रुम | पिडुगु-सुब्बरामय्या |
| 203. | वाजिकरणतन्त्रम् (तेलुगु) | चिवुकुलसत्यनारायशास्त्री |
| 204. | वनौषधि-चन्द्रोदय | चन्द्रराज भण्डारी |
| 205. | वनौषधि-निदर्शिका | रामसुशील सिंह |
| 206. | वङ्गसेन-संहिता / चिकित्सा-सार-सङ्ग्रह | बंगसेन |
| 207. | वास्तुगुणदीपिका (तेलुगु) | येर वेंकटस्वामी |
| 208. | वास्तुगुणमहोदधि (तेलुगु) | अज्ञात |
| 209. | वास्तुगुणप्रदर्शिनी (तेलुगु) | दवलेश्वरपुरसोमलिंगाचार्यलुद्वारा सम्पादित |
| 210. | वास्तुगुणप्रदीपिका | ग्रन्थिवेंकटसुब्बरायशर्मा |
| 211. | विदेह निमि-तन्त्र | निमि |
| 212. | वीरसिंहावलोक | वीरसिंह |
| 213. | विषवैद्यज्योत्स्निका | अज्ञात |
| 214. | विषवैद्यसारसमुच्चयम् | चेरुकुलप्पुरथ कृष्णन् नम्बूद्री |
| 215. | विश्वनाथचिकित्सा/चिकित्सार्णव | विश्वनाथसेन |
| 216. | वृक्षायुर्वेद | शूरपाल |
| 217. | वृक्षायुर्वेद | पराशर |
| 218. | वृन्दसङ्ग्रह/वृन्दमाधव/सिद्धयोग | वृन्द |
| 219. | यशस्वी औषधि (मराठी) | एन. डी. देशपाण्डे |
| 220. | योगचन्द्रिका | श्री लक्ष्मण पण्डित |
| 221. | योगचिन्तामणि | हर्षकीर्ति |
| 222. | योगामृतम् (मलयालम्) | अज्ञात |
| 223. | योगरत्नाकर | अज्ञात |
| 224. | योगरत्नसमुच्चय | चन्द्रट |
| 225. | योगसारम् (मलयालम्) | अज्ञात |
| 226. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आरोग्यशाला फार्म्युलरी | अज्ञात |
| 227. | आयुर्वेदिक औषधि फार्म्युलरी (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) | अज्ञात |

सिद्धा प्रणाली

| क्र. सं. | पुस्तक का नाम (रोमन लिपि में) | मूल लेखक का नाम |
|----------|---|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 18 सिद्धर् सिल्लरैक्कोर्वै | सिद्ध 18र् |
| 2. | आत्मरक्षा मृतमेत्तुम्बैद्यसारसंग्रहम् | सिद्ध 18र् |
| 3. | अगत्तियर्- 1500 | अगत्तियर् |
| 4. | अगत्तियर्- 600 | अगत्तियर् |
| 5. | अगत्तियर् ऐन्दुसास्त्रिङ्गळ् | अगत्तियर् |
| 6. | अगत्तियर् अनुबोगवैद्यकळञ्जियम् | अगत्तियर् |
| 7. | अगत्तियर् अट्टवणैवागडम् | अगत्तियर् |
| 8. | अगत्तियर् चेंदूरम् (300) | अगत्तियर् |
| 9. | अगत्तियर् सिल्लरैक्कोर्वै | अगत्तियर् |
| 10. | अगत्तियर् कर्न्मसूत्तिरम् | अगत्तियर् |
| 11. | अगत्तियर् नयन्नविदि | अगत्तियर् |
| 12. | अगत्तियर् पळळु | अगत्तियर् |
| 13. | अगत्तियर् पन्नीरायिरम् | अगत्तियर् |
| 14. | अगत्तियर् परिपूरणम्(400) | अगत्तियर् |
| 15. | अगत्तियर् पिन्(80) | अगत्तियर् |
| 16. | अगत्तियर् रत्तसुरुक्कम् | अगत्तियर् |
| 17. | अगत्तियर् वैद्यकावियम्(1500) | अगत्तियर् |
| 18. | अगत्तियर् वैद्यपूरणम्मट्टुम्सूत्तिरम् 205 | अगत्तियर् |
| 19. | अगत्तियर् वल्लादि(600) | अगत्तियर् |
| 20. | अनुबववैद्यमुरैगळ् | राजा सरबोजी |
| 21. | अनुबोगवैद्यब्रम्मरगसियम् | कोशायि स्वामीगळ् |
| 22. | अनुबोगवैद्यनवनीतम्(भागII-X) | हकीम पीसाहब अब्दुल्ला मोहम्मद.एम. |
| 23. | अनुबोगवैद्य राजरत्तचिन्तामणिभाग-I | वरदराजुलु नायडु |
| 24. | बालवागडम् | सिद्ध 18र् |
| 25. | बोगर्(700) | बोगर् |
| 26. | बोगर् (7000) (1-7 काण्डम्) | बोगर् |
| 27. | बोगर् मुत्तिवर्कावियम् 1000 | बोगर् |
| 28. | बोगर्वैद्यम् 700 | बोगर् |
| 29. | ब्रम्ममुत्तिकरुक्कडै(300) | ब्रम्ममुनि |
| 30. | सिकिच्चारत्तदीपम् | एस. कन्नुसामि पिल्लै |
| 31. | सिमिट्टुत्तसुरुक्कम्-360 | धन्वन्तरि |
| 32. | दक्षिणा मूर्त्तिमेय्ज्ञानम्- 1500 | दक्षिणा मूर्ति |
| 33. | ऐण्णैय्वागडम् | एसरंगराज.न् |
| 34. | गुणपाडम्- मुखल पगुथी | मुरुगेसमुदलियार् |
| 35. | गुणपाडम्- इरानडुमाट्टम मूनड्रम पगुथि | आरत्यागराज.न् |
| 36. | गुन्मरोगसिकिच्चैसरवेन्द्रवैद्यमुरैगळ् | राजा सरबोजी |

| | | |
|-----|---|-----------------------------------|
| 37. | कैलासनादसूक्तिरम् 201 | कैलासनादर |
| 38. | कण्मरुत्तुवम् | अगतियर् |
| 39. | गर्बिणिबालरोगसिकिञ्चैसरवेन्द्रवैद्यमुरैगळ् | राजा सरबोजी |
| 40. | काससुवाससिकिञ्चैसरवेन्द्रवैद्यमुरैगळ् | राजा सरबोजी |
| 41. | कुम्बमुनिबालवागडम् | अगतियर् |
| 42. | मणिमन्त्रवैद्यसेकरम् | एकाम्बर जोतिडर् |
| 43. | मरुत्तुवआसैयम् | 18सिद्धर् |
| 44. | मदलैनोय्तोगुदि(I-III) | सिद्ध 18र् |
| 45. | मेगनोय्तिवारणपोदुनेरिऐण्णुम्नीरिळिवुमरुत्तुवम् | हकीम पी एम मोहमद अब्दुल्लाह साहिब |
| 46. | मेगनोय्सूदकनूलुम्अरिवैयर्चिन्तामणि | सिद्ध 18र् |
| 47. | नागमुत्ति(200) | नागमुनि |
| 48. | नन्दीस्वरकैलैज्ञानम् | नन्दीस्वरर् |
| 49. | नट्त्तिकाण्डम् - 1200 | सिद्ध 18र् |
| 50. | नट्त्तिकाण्डम्- 1500 | सिद्ध 18र् |
| 51. | नयन्नरोगसिकिञ्चैसरवेन्द्रवैद्यमुरैगळ् | राजा सरबोजी |
| 52. | नीरिळिवुसिकिञ्चैसरवेन्द्रवैद्यमुरैगळ् | राजा सरबोजी |
| 53. | नोय्याळुकुसिद्धपरिकारम्भाग1-2 | एम. षण्मुखवेलु |
| 54. | ऊर्वसिरसवादसिट्का | सिद्ध 18र् |
| 55. | पदार्त्तगुणचिन्तामणि | सिद्ध 18र् |
| 56. | पदिनेप्पिसद्धर्जाजवैद्यबोदिनि | सिद्ध 18र् |
| 57. | पित्तरोगसिकिञ्चैसरवेन्द्रवैद्यमुरैगळ् | राजा सरबोजी |
| 58. | पुलिप्पाणि(500) | पुलिप्पाणि |
| 59. | सन्ति, वैसूरि, पैत्तियम्, कुट्टम्, ऊळिनोय्तोगुदि | सिद्ध 18र् |
| 60. | सट्टमुत्तिवातकावियम् | सट्टमुनि |
| 61. | सिद्धमरुत्तुवनोय्तोगुदि-I | सिद्ध 18र् |
| 62. | सिद्धमरुत्तुवम् - पोदु | डा. केकुप्पुसा .एन.मि मुदलियार् |
| 63. | सिद्धवैद्यतिरट्टु | केकुप्पुसा .एन.मि मुदलियार् |
| 64. | सिद्धर्कायकर्पम् | जीवेलुचा .मि आदि |
| 65. | सिलेर्पन्ननोय्, उदरनोय्तोगुदि | सिद्ध 18र् |
| 66. | सिरोरत्तवैद्यपूषणम् | अंग मुत्तु मुदलियार् |
| 67. | सुररोगसिकिञ्चैसरवेन्द्रवैद्यमुरैगळ् | राजा सरबोजी |
| 68. | तरळमणिबालवागडम् | सिद्ध 18र् |
| 69. | द सिद्ध फॉर्मूलरी आफ इंडिया /भारतीय सिद्ध योग संग्रह एवं इसके भाग | अज्ञात |
| 70. | द सिद्ध फार्माकोपिया आफ इंडिया /भारतीय सिद्ध भेषज संहिता एवं इसके भाग तथा उनके खण्ड | अज्ञात |
| 71. | तेरैयर्काप्पियम् | तेरैयर् |
| 72. | तेरैयर्करिसल्- 300 | तेरैयर् |
| 73. | तेरैयर्महाकरिसल् | तेरैयर् |

| | | |
|-----|-------------------------------------|-------------|
| 74. | तेरैयर्सेकरप्पा | तेरैयर् |
| 75. | तेरैयर्तेलवर्गम् | तेरैयर् |
| 76. | तेरैयर्तरु | तेरैयर् |
| 77. | तेरैयर्वेद्यम् - 1001 | तेरैयर् |
| 78. | तेरैयर्यमगम् | तेरैयर् |
| 79. | वैद्यकावियम् - 1500 | अगत्तियर् |
| 80. | वर्ममरुन्दुसेय्मुरैगळ् | अगत्तियर् |
| 81. | वर्ममरुत्तुवम्भिरप्पु | अगत्तियर् |
| 82. | वातनोय्निदात्तम् - 800 | 18 सिद्धर् |
| 83. | वातरोगसिकिञ्चैसरबेन्द्रवैद्यमुरैगळ् | राजा सरबोजी |
| 84. | वीरमामुत्तिनसकाण्डम् | वीरमुनिवर् |
| 85. | वीरमामुत्तिवर्वागडतिरट्टुभाग I-II | वीरमुनिवर् |
| 86. | याकोबुवैद्यम्- 300 | याकोबु |
| 87. | यूगिकरिसल् (151) | यूगि |
| 88. | यूगिमुत्तिवर्वातकावियम् | यूगि |

ख-यूनानी टिब्ब प्रणाली

| क्रम.सं. | पुस्तक का नाम (रोमन लिपि में) | मूल लेखक का नाम | भाषा |
|----------|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | आबे हयात | सैयद मोहम्मद अली खान | उर्दू |
| 2. | अयनुल हयात | मोहम्मद बिन यूसूफ हरवी | अरबी |
| 3. | अल जामी ली मुफरादात अल अदविया अल अगज़िया वाल्यूम. 1-4 (उर्दू अनुवाद) | अब्दुल्लाह इब्न अहमद अल-मलकी इब्न अल-बैतार | उर्दू |
| 4. | अल कराबादीन | हकिम मोहम्मद कबीरुद्दीन | उर्दू |
| 5. | अल तसरिफलिमन 'एज़ाज' आन अल-तालिफ" | अबुल कासिम ज़हरावी | अरबी |
| 6. | अल-कानून फिल तिब्ब वाल्यूम. 2-5 | इब्ने सीना | अरबी |
| 7. | अमल-उस-सालेहीन (कराबादीन सालेही) | मोहम्मद सालेह बिन मोहम्मद सालेह हरवी | फ़ारसी |
| 8. | असरार ए हिकमत वाल्यूम. -1 | अब्दुल अज़िज | उर्दू |
| 9. | असरार-उल-अतिब्बा वाल्यूम. 2 से 4 | मोहम्मद अब्दुल माजिद अतीकी | उर्दू |
| 10. | बयाज़ वहीदी | अब्दुल वहीद | उर्दू |
| 11. | बयाज़ ए अतिब्बा | गुलाम मोहिउद्दीन चुगताई | उर्दू |
| 12. | बयाज़ ए कबीर वाल्यूम. 2 | हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन | उर्दू |
| 13. | बयाज़ ए करीमी | मिर्ज़ा मोहम्मद नज़ीर | उर्दू |
| 14. | बयाज़ ए नूरुद्दीन वाल्यूम. 1 | मौलवी नूरुद्दीन | उर्दू |
| 15. | दस्तूर अल अतिब्बा वाल्यूम. 2 | महोम्मद हसन कर्शी | उर्दू |

| | | | |
|-----|--|---|--------------|
| 16. | दस्तूर उल इलाज | सुल्तान अली खुरासानी | फ़ारसी |
| 17. | दस्तूर उल इलाज | इकराम रज़ा खान | उर्दू |
| 18. | दिल्ली का शाही मतब | खवाजा रिज़वान अहमद | उर्दू |
| 19. | गिना मुना | अबू अल-मंसूर हसन बिन नूह क्रमरी | उर्दू |
| 20. | हाज़िक | मोहम्मद अजमल ख़ान | उर्दू |
| 21. | इख्तीयारात-ए-बदई | अली बिन अल-हुसैन अल-अंसारी (इलियाज़ ज़ायन अल-अत्तार) | अरबी |
| 22. | इक्सीर आज़म वाल्यूम. 1-4 | मोहम्मद आज़म ख़ान | फ़ारसी |
| 23. | इक्सीर कुश्ताजात | गुलाम नबी | उर्दू |
| 24. | इकसिरूल अमराज़ | सैयद अलमदार हुसैन | उर्दू |
| 25. | इलाज -अल-अमराज़ | हकीम शरीफ़ ख़ान | उर्दू |
| 26. | इलाज-उल-गुराबा | गुलाम इमाम | उर्दू |
| 27. | इंतखाब -ए- जलील | जलील अहमद अंसारी | उर्दू |
| 28. | जमी-अल-हिकमत | मोहम्मद हसन कर्षी | उर्दू |
| 29. | कामिल अल सना अल तिब्बिया वाल्यूम. 1 और 2 | अली बिन अब्बास मजूसी | अरबी |
| 30. | खज़ाईन उल अदविया वाल्यूम. सेट (1-8) | नजमुल ग़नी रामपूरी | उर्दू |
| 31. | खज़ाईन-उल-मुलुक | शमसुद्दीन | फ़ारसी |
| 32. | खुलास्त-उल-हिकमा | मीर मोहम्मद हुसैन ख़ान | फ़ारसी |
| 33. | खुलास्त-उल-तजारीब | बाहा अल-दौला नूर बक्शी | फ़ारसी |
| 34. | किफ़ाया-ए-मंसूरी | मंसूरबिन मोहम्मद | फ़ारसी |
| 35. | किमिया-ए-इशरत | मोहम्मद सादिक | फ़ारसी |
| 36. | किताब अल मंसूरी(उर्दू अनुवाद) | मोहम्मद इबन ज़कारिया राज़ी | उर्दू |
| 37. | किताब अल उमदा फिल ज़राहात वाल्यूम. 1-2 (उर्दू अनुवाद) | अमिनदौला अबू फराज़ इब्र अल- क्रवाफमसिही | उर्दू |
| 38. | किताब अल-अग़ज़िया (उर्दू अनुवाद) | अब्दुल मलिक बिन जुहर | उर्दू |
| 39. | किताब अल-मुख़्तारात फित तिब्ब | इब्र हुबल बग़दादी | अरबी |
| 40. | किताब-अल-हावी (वाल्यूम: 1-23) | मोहम्मद इबन ज़कारिया राज़ी | अरबी |
| 41. | किताब-अल-तैसीर(उर्दू अनुवाद) | अबु मरवान इब्र जुहर | उर्दू अनुवाद |
| 42. | किताब-अल-तकलीस | हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन | उर्दू |
| 43. | किताब-उल-अब्दाल | मोहम्मद इब्र ज़कारिया राज़ी | अरबी |
| 44. | लब्ब-उल-मुजरबत | दिलबार हसन ख़ान भट्टी | उर्दू |
| 45. | मदन अल अक्सिर | हकीम मोहम्मद फ़िरोज़ुद्दीन | उर्दू |

| | | | |
|-----|---|-----------------------------|-----------|
| 46. | मदिन अल-शिफा सिंकदर शाही (मुजर्रबात तिब्ब-उल-सिंकदरी) | बहवा बिन खवास खान | फ़ारसी |
| 47. | मज़मा-उल-बेहरीन | हैदर अली खान | उर्दू |
| 48. | मज़मुआ-इ-बकाई वाल्यूम. 1-2 | मोहम्मद इस्माइल | फ़ारसी |
| 49. | मखज़न अल अदविया | मीर मोहम्मद हुसैन शिराज़ी | फ़ारसी |
| 50. | मखज़न सुलेमानी | मोहम्मद शम्सुद्दीन | उर्दू |
| 51. | मखज़न-अल-मुफ़रादात | हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन | उर्दू |
| 52. | मखज़न-उल- तालीम | मोहम्मद सदिक अली खान | फ़ारसी |
| 53. | मामूलात-इ-शीरानी | गुलाम हुसैन शीरानी | उर्दू |
| 54. | मनाफी-अल अग़दिया वा दाफ़ुल मदारीहा | मोहम्मद इन्न ज़कारिया राज़ी | अरबी |
| 55. | मर्ज-उल-बहरीन वाल्यूम. 1-3 | अब्दुल हमीद | उर्दू |
| 56. | मतब-अल्वी खान | अल्वी खान | फ़ारसी |
| 57. | मतब-इ-अमली | जमील खान | उर्दू |
| 58. | मीज़ान-उल-तिब्ब(उर्दू अनुवाद) | मोहम्मद अकबर अज़नी | उर्दू |
| 59. | मिफ़्ताह अल ख़ज़ाईन | हकीम करीम बख़्श | उर्दू |
| 60. | मिफ़्ताह-उल-हिकमतवाल्यूम. 1-2 | मोहम्मद शरीफ़ खान | उर्दू |
| 61. | मिन्हाज अल-दूकन वा दस्तूर अल-अयान वाल्यूम. 1-2 | अबुल मीना अत्तार इसराइली | उर्दू |
| 62. | मिस्वाह-उल-हिकमत | मोहम्मद फ़िरोज़ुद्दीन | उर्दू |
| 63. | मुहीत-ए-आज़मवाल्यूम. 1-4 | मोहम्मद आज़म खान | फ़ारसी |
| 64. | मुजर्रबात अकबरी | मोहम्मद अकबर अरज़ानी | फ़ारसी |
| 65. | मुजर्रबात अज़ीज़ी | अब्दुल हलीम | फ़ारसी |
| 66. | मुजर्रबात सुल्तानी वाल्यूम. 1-4 | मोहम्मद यार खान | उर्दू |
| 67. | मुजर्रबात वलीउल्लाह | मोहम्मद वलीउल्लाह खान | उर्दू |
| 68. | मुजर्रबात-ए-लुक़मानी | अब्दुल रहीम | उर्दू |
| 69. | मुजर्रबात-ए-रज़ाई | सैयद रज़ा हसन जफ़ारी | फ़ारसी |
| 70. | फार्माकोपिया ऑफ़ हॉस्पिटल ऑफ़ इंटीग्रेटेड मेडिसिन | डॉ. वी. नारायणस्वामी | अंग्रेज़ी |
| 71. | पाकेट इल्मुल अदवीया (तिब्बी डायरी) | मोहम्मद इब्राहिम नदवी | उर्दू |
| 72. | कराबादीन आज़म | मोहम्मद आज़म खान | उर्दू |
| 73. | कराबादीन हमीदिया | सैयद अब्दुल हमीद | उर्दू |
| 74. | कराबादीन इन्न तिलमिज़ | इन्न तिलिमिज़ | अरबी |
| 75. | कराबादीन जदीद | हकीम अब्दुल हफीज़ | उर्दू |
| 76. | कराबादीन कबीर | मीर मोहम्मद हुसैन शीराज़ी | उर्दू |
| 77. | कराबादीन कोकबी ओर मुजर्रबात शौकती | यार मोहम्मद खान कौकब | उर्दू |
| 78. | कराबादीन मुफ़ीद-ए-आम | मोहम्मद शरीफ़ हैदराबादी | उर्दू |

| | | | |
|------|---|--|-----------|
| 79. | करावादीन नजमुल गनी | नजमुल गनी खान | उर्दू |
| 80. | करावादीन कादरी | मोहम्मद अकबर अरज़ानी | उर्दू |
| 81. | करावादीन रहीमी | रहीम खान बहादुर | उर्दू |
| 82. | करावादीन रजाई | मोहम्मद हादी रज़ा खान | उर्दू |
| 83. | करावादीन-ए-आज़म वा अकमल | मोहम्मद आज़म खान | फ़ारसी |
| 84. | करावादीन-ए-हाज़िक | मोहम्मद हसन हाज़िक | फ़ारसी |
| 85. | करावादीन-ए-जलाली | जलालुद्दीन अमरोही | फ़ारसी |
| 86. | करावादीन-ए-लुत्फी | अब्दुल सत्तार लूत्फी | उर्दू |
| 87. | करावादीन-ए-मजीदी | तिब्बी कॉन्फ़ेन्स | उर्दू |
| 88. | करावादीन-ए-सरकारी | इंडियन मेडिसिन डिपॉर्टमेंट, आंध्र प्रदेश सरकार | उर्दू |
| 89. | करावादीन-ए-ज़काई | ज़काउल्ला खान | फ़ारसी |
| 90. | करावादीन-ए-एहसाना | मोहम्मद अहसान अली खान | उर्दू |
| 91. | करावादीन-ए-शिफाई (उर्दू अनुवाद) | मुज़फ़्फ़र बिन मोहम्मद | उर्दू |
| 92. | रूमूज़-ए-आज़मवालयूम .1-2 | मोहम्मद आज़म खान | फ़ारसी |
| 93. | रूमूज़-उल-अतिब्बावालयूम. 1-2 | मोहम्मद फ़िरोज़ुद्दीन | उर्दू |
| 94. | सदरी मुज़रबातवालयूम. 1-5 | ऑल इंडिया वैदिक यूनानी तिब्बी कॉन्फ़ेन्स | उर्दू |
| 95. | सनात-अल-तक्लीस | हकीम अब्दुल हफीज | उर्दू |
| 96. | शिफ़ा-उल-अब्दान | वाजिद अली | फ़ारसी |
| 97. | सिल्क-ए-मरवारीद | मोहम्मद हसन कर्शी | उर्दू |
| 98. | तज़रिबातबील मुफ़रादात | मिज़ा इमादुद्दीन | उर्दू |
| 99. | तकमील-अल-बहरीन(वालयूम. 4-5) | अहमद अली खान | उर्दू |
| 100. | तकशीफ़-उल-हिकमत | मोहम्मद सलीम खान | फ़ारसी |
| 101. | तर्जुमा-ए-कबीरवालयूम. 1-4 | मोहम्मद कबीरुद्दीन | उर्दू |
| 102. | तौज़ीह-उल-अदविया | मोहम्मद हसन हाज़िक मिरठी | उर्दू |
| 103. | तज़किरा-ए-जलील | हफीज जलील अहमद अंसारी | उर्दू |
| 104. | तज़किरात-उला अल-बाब वॉ-जमे लिल अजब-इल-उजाबवालयूम. 1-3 | दाउद अंताकी | अरबी |
| 105. | तज़किरात-उल-कुहालीन (उर्दू अनुवाद) | अली बिन इसा अल- कुहाल | उर्दू |
| 106. | दी नेश्रल फॉरमुलेरी ऑफ़ यूनानी मेडिसिन इंक्लुडिंग ऑल दी पार्टस देयर ऑफ़ | अज्ञात | अंग्रेज़ी |
| 107. | द यूनानी फार्माकोपिया आफ़ इंडिया इसके भाग तथा उनके खण्ड | अज्ञात | अंग्रेज़ी |
| 108. | तोहफ़त-उल-मोमिनीन | मीर मोहम्मद मोमिन | फ़ारसी |
| 109. | उजाला नाफिया | मोहम्मद शरीफ़ खान | फ़ारसी |

| | | | |
|------|--|--|--------|
| 110. | याकूती | वकील अहमद | फ़ारसी |
| 111. | ज़ाद-ए-ग़रीब (उर्दू अनुवाद) | सादिक अली ख़ान | उर्दू |
| 112. | जखीरा ख़्वारज़म शाहीवालयूम 1-10 (उर्दू अनुवाद) | इस्माइल बिन अल-हसन मोहम्मद अहमद अल- हुस्नी अल-जुरजानी (हादी हसन खान द्वारा अनुवाद किया गया है) | उर्दू |

[फ़ा.सं. टी-11011/6/2024-डीसीसी (आयुष)]

डा. कौस्तुभा उपाध्याय, सलाहकार (आयुर्वेद)

पाद टिप्पण :-ओषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 की पहली सूची का संशोधन पहली बार तारीख 1 फरवरी, 1983 को 1982 के अधिनियम सं. 68 द्वारा किया गया था और अंतिम बार यह अधिसूचना संख्यांक 5285(अ), तारीख 4 दिसंबर, 2024 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF AYUSH**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th February, 2025

S.O. 643(E).—In exercise of the powers conferred by section 33-O of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government after consultation with the Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board, proposes to make following draft amendments, further to amend the First Schedule of the said Act and accordingly, is hereby published, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that said draft amendment shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of three months from the date on which the copies of this notification, as published in the official Gazette, are made available to the public;

Any objections and suggestions which may be received from any person in respect of draft amendment before the expiry of the aforesaid period above shall be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to this draft amendment, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Ayush, AYUSH Bhawan, 'B' Block, GPO Complex, INA, New Delhi – 110023 or emailed at dcc-ayush@nic.in.

Draft Amendment

1. For the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“THE FIRST SCHEDULE

[See Section 3(a)]

A-AYURVEDIC AND SIDDHA SYSTEMS

Ayurveda System

| Sl. No | Name of the book (In Roman Script) | Name of the original Author |
|--------|--|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Abhidhanamanjari | Bhishagarya |
| 2. | Abhinavachikitsaratnakaramu(Telugu) | Palamki Suryanarayana Kavi |
| 3. | Abhinavachintamani | Chakrapani Das |
| 4. | Agastyaprokta Vaidyashastramu (Telugu) | Swarupananda Swami |
| 5. | Alatturmanipravalam | Govindan Vaidyar |
| 6. | Anandakanda | Manthana Bhairava |
| 7. | Andhrabhaishajyaratnavali | Sripada Krishna Murthy |
| 8. | Andhravaidyachintamani (Telugu) | Devulapalli Venkatanarasamantri |

| | | |
|-----|---|---|
| 9. | Anubhavapashuvaidyachintamani (Telugu) | Yejella Shriramulu Caudari |
| 10. | Anubhavachikitsadarpanamu (Telugu) | Munnaiah Lokaraju |
| 11. | Anupana-Manjari | Acharya Vishram |
| 12. | Arkaprakasha | Ravana |
| 13. | Arogyakalpadrumam | Kaikulangara Rama Varyar |
| 14. | Aryabhishak(Marathi) | Shastri Shankar Daji Pade |
| 15. | Ashtangahridaya | Vagbhata |
| 16. | Ashtanga-Nighantu | Vahatacharya |
| 17. | Ashtangasangraha | Vagbhata |
| 18. | Ashvachikitsa (Hindi) | Jayapala Simha |
| 19. | Ashvachikitsitam | Shri Nakula |
| 20. | Ashva-Shastram | Nakula |
| 21. | Ashvavaidyakam | Shri Jayadatta |
| 22. | AyurvedaAushadharatnakara | Sripada Krishnamurthi Shastri |
| 23. | Ayurvedavaidyasangrahamu (Telugu) | Pi. Si. Ayyavarappayya |
| 24. | Ayurvedachintamani | Baldeva Prasad Mishra |
| 25. | Ayurvedaprakasha | Madhava |
| 26. | Ayurvedasangraha | Debendranath Sen Gupta & Upendranath Sen Gupta |
| 27. | Ayurvedasarasangraha | Anonymous |
| 28. | Ayurvedavaidyasaramu (Telugu) | Tripurari Markandeyulu |
| 29. | Ayurvedavijnana Part- I&II | Vinod das Gupta |
| 30. | Ayurvediya Aushadhigunadharmashastra (Marathi) | Shri Gangadharshastri Gune |
| 31. | Ayurvediya Aushadhikarana (Agama ani Pratyaksha) (Part- 1-2) (Marathi) | P.V. Dhamankar & G.V.Puranik |
| 32. | Basavarajiyam/ Vasavarajiyam | Basavaraj |
| 33. | Bhaishajyaratnavali | Govind Das Sen |
| 34. | Bharata-Bhaishajya-Manjari | Civukula Satyanarayana Shastri |
| 35. | Bharata-Bhaishajya-Ratnakara | Nagindas Chaganlal Shah |
| 36. | Bhasmapradipika | Davaleshvarapu Somalingacaryulu |
| 37. | Bhasmavijnana | Harisharanananda Vaidya |
| 38. | Bhavaprakasha-Nighantu Parishishta | Acharya K C Chunekar |
| 39. | Bhavaprakasha-Samhita | Bhavamishra |
| 40. | Bhela-Samhita | Bhela |
| 41. | Bheshajakalpa | Bhardwaj |
| 42. | Bheshajasamhita | Govt. of Gujarat |
| 43. | Bhishanmani(Telugu) | Pinneli Narasimhakavi |
| 44. | Bhojanakutuhala | Shri Raghunatha |
| 45. | Brihad(/Brihat)-Rasarajasundara | Dutta Ram Chaube |
| 46. | Brihad(/Brihat)-Yogatarangini | Trimalla Bhatt |
| 47. | Brihadvaidyaratnakara | Tenmatham-Venkatanarasimhacaryulu |
| 48. | Brihat Nighantu/Brihannighantu Ratnakara | Duttaram |
| 49. | Chakradatta | Chakrapanidatta |
| 50. | Chamatkara-Nighantu | Anonymous |
| 51. | Charaka-Samhita | Agnivesha |
| 52. | Charucarya | Bhojaraja |

| | | |
|------|---|---|
| 53. | Chikitsa Prabhakara (Marathi) | Prabhakar Balaji Ogale |
| 54. | Chikitsadarpanamu(Telugu) | Bhaganagaram-Gurulimgadevara |
| 55. | Chikitsakalika | Tisatacharya |
| 56. | Chikitsa-Kaustubham | Anonymous |
| 57. | Chikitsamanjari(Malayalam) | Anonymous |
| 58. | Chikitsa-Pradipa | Bhaskar Vishwanath Gokhale |
| 59. | Chikitsaratnamu | Jayakrishna Das |
| 60. | Chikitsasangraham(Malayalam) | P. S. Warriar |
| 61. | Chikitsasara | Gopaladasu |
| 62. | Dhanvantari-Nighantu | Mahendrabhaugik |
| 63. | Dhanvantari-Saranidhi | Anonymous |
| 64. | Dhanvantari-Shesha | Anonymous |
| 65. | Dhanvantari-Vaidyalahari(Telugu) | Grandhi Venkata Subbaraya Gupta |
| 66. | Dhanvantari-Vijayamu(Telugu) | Yogi China Byragi |
| 67. | Dravyaguna-Sangraha | Chakrapani Dutta |
| 68. | Dravyaguna-Vigyana, (1-5 parts) | Acharya Prof. P. V. Sharma |
| 69. | Gadanigraha | Shodhala |
| 70. | Ghritaranga (Bhaishajyaratnakarantargata) | Compiled by Puvvada Ramacandrarao Pantulu |
| 71. | Godhana Vardhini(Hindi) | Jayapala Simha |
| 72. | Harita-Samhita | Harita |
| 73. | Hastyayurveda | Palkapya |
| 74. | Hridayadipaka-Nighantu | Bopadeva |
| 75. | Jivadhanarakshani(Telugu) | Anonymous |
| 76. | Kaiyadeva-Nighantu | Kaiyadev |
| 77. | Kalyanakarakam | Ugradityacarya |
| 78. | Kamakutuhala | Anonymous |
| 79. | Karikalpalata(Hindi) | Pandita Mangalacarana Dikshita |
| 80. | Kashyapa-Samhita | Vridhrajivaka |
| 81. | Kriyakaumudi Varsha Kriya kanda | Govindananda |
| 82. | Kshemakutuhala | Kshema Sharma |
| 83. | Kupipakva Rasa-Nirmanavijnana | Harisharanananda Vaidya |
| 84. | Kupipakvarasayanam | Anonymous |
| 85. | Laghu-Nighantu | Lolimbhaja |
| 86. | Lakshmidatarangini | Ganesh Datta Shastri |
| 87. | Lohasarvasvam | Sureshvara |
| 88. | Madanadi-Nighantu | Candranandana |
| 89. | Madanapala-Nighantu | Madanpal |
| 90. | Madhava-Chikitsa | Madhavakara |
| 91. | Madhava-Dravyaguna | Madhavakara |
| 92. | Mahaushadha-Nighantu | Aryadas Kumar Simha |
| 93. | Nanavidhavidyam | Anonymous |
| 94. | Netradarpana | Tadipalli Panakalaraya |
| 95. | Netraprakashika | Nandikeshvara |
| 96. | Netrarogachikitsa (Malayalam) | Anonymous |
| 97. | Nighantaratanakara | Vishnu Vasudeva Godbole |
| 98. | NighantuAdarsha (02 parts) | Bapalal Vaidya |
| 99. | Nighantu-Shesha | Hemchandra Suri |
| 100. | Parahita Samhita | Shri Nath Pandit |

| | | |
|------|---|----------------------------|
| 101. | Pathapathyavinishchaya | Vishwanath Sen |
| 102. | Perarajiyamu(Telugu) | Pandita B. Sitarama Rajulu |
| 103. | Pharmacopoeia (Malayalam) | Anonymous |
| 104. | Pharmacopoeia in Ayurveda | Govt. of Andhra Pradesh |
| 105. | Prayogasamuchchayam (Malayalam) | Kochuuni Thampuram |
| 106. | Priya Nighantu | Acharya Prof. P. V. Sharma |
| 107. | Pulippanivaidyashastramu(Telugu) | Puranam Picchaiah Sastri |
| 108. | Rajakiyaushadhiyogasangraha | Raghuvir Prasad Trivedi |
| 109. | Rajamartanda | Bhojaraju |
| 110. | Raja-Nighantu | Narhari Pandita |
| 111. | Rajavallabha-Nighantu | Rajavallabha |
| 112. | Rasachandanshu | Dutta Vaidya |
| 113. | Rasahridayatantram | Govinda Bhagavatpada |
| 114. | Rasajalanidhi | Kaviraj Bhudeb Mukherjee |
| 115. | Rasakamadhenu(Part I – IV) | Shri Chudamani |
| 116. | Rasakaumudi | Jnanacandrasharma |
| 117. | Rasamanjari | Shalinatha |
| 118. | Rasamanjusha | Dwarka Tripathi |
| 119. | Rasamritam | Yadavji Trikamji |
| 120. | Rasapaddhati | Bindu |
| 121. | Rasapradipika | Mudumb Venkatacharya |
| 122. | Rasaprakashasudhakara | Yashodhar |
| 123. | Rasaprakashika | Ramakrishna Sharma Dhanda |
| 124. | Rasaratnakara (Rasa Khanda, Rasendra Khanda, Vadhi or Riddhi Khanda, Rasayana Khanda) | Nityanath |
| 125. | Rasaratnakaram | Krishnamacaryulu |
| 126. | Rasaratnasamuchchaya | Vagbhata |
| 127. | Rasarnavam Nama Rasatantram Rasasamhita | Anonymous |
| 128. | Rasatantrasaravasiddhaprayoga Sangraha - part1(Hindi) | Anonymous |
| 129. | Rasatantrasaravasiddha Prayogasangraha - part2(Hindi) | Anonymous |
| 130. | Rasatarangini | Sadanand Sharma |
| 131. | Rasayanakhanda | Nityanath Siddha |
| 132. | Rasayanasara | Shyamsundaracharya Vaishya |
| 133. | Rasayogaratnakaram | Anonymous |
| 134. | Rasayogasagara | Pandit Hariprapanna Sharma |
| 135. | Rasayogasangraha | Anonymous |
| 136. | Rasendra-Chintamani | Dhundhukanath |
| 137. | Rasendra-Chudamani | Somadeva |
| 138. | Rasendrasarasangraha | Gopal Krishna Bhatt |
| 139. | Rasopanishat | Anonymous |
| 140. | Ravanakaumaratantra | Shri Ravana |
| 141. | Rudrayamalam | Anonymous |
| 142. | Sahadevapashuvaidya | Naranaryudu |
| 143. | Sahasrayogam(Malayalam) | Anonymous |
| 144. | Sannipatakalika | Vaidya Mathan Simha |
| 145. | Sarasvati-Nighantu | Anonymous |

| | | |
|------|--|--|
| 146. | Sarvarogachikitsaratnam(Malayalam) | Anonymous |
| 147. | Sarvayogachitsanul(Malayalam) | Anonymous |
| 148. | Saushruta-Nighantu | Anonymous |
| 149. | Shalihotra | Nakula |
| 150. | Shalihotra-Sangraha | Keshavasimhaji |
| 151. | Shankara-Nighantu | Shankar Datta Gaur |
| 152. | Sharabharajiyam (Telugu) | Tullurisarabharaja |
| 153. | Sharngadhara-Samhita | Sharngadhara |
| 154. | Shatabhasmayogaratnakaramu(Telugu) | Kanakadamdi Sitaramayya |
| 155. | Shatalehyapakaprakashika(Telugu) | S. A. T. M. Srinivasacharyulu Ayyavarulu |
| 156. | Shatalehyapakavali (Telugu) | Davaleshvarapu Somalingacaryulu |
| 157. | Shatashloki | Bopadeva |
| 158. | Shivakosha-Nighantu | Shri Shivadutta |
| 159. | Shivanathasagara | Vishvanathasimha Yodhane |
| 160. | Shrivenkatadriya | Tiruvuru Venkatadri |
| 161. | Shushkapashuvaidyatamobhaskara(Telugu) | Venigalla Venkataappaya |
| 162. | Siddhabhaishajyamanimala | Krishna Ram Bhatt |
| 163. | Siddhabhaishajyamanjusha | Jayadeva Shastri Joshi |
| 164. | Siddhabheshajasangraha | Yugal Kishor Gupta |
| 165. | Siddhamantra-Nighantu | Keshava |
| 166. | Siddhaprayogalatika | Gulraj Sharma Mishra |
| 167. | Siddhasara-Nighantu | Ravigupta |
| 168. | Siddhasara-Samhita | Anonymous |
| 169. | Siddhaushadhisangraha | Govind Appaji Phadake |
| 170. | Siddhayogasangraha | Yadavji Trikamji |
| 171. | Sodhala/Shodhala-Nighantu | Sodhala |
| 172. | Sukhasadhakam(Malayalam) | Vaikkom Pachumuthathu |
| 173. | Sushruta-Samhita | Sushruta |
| 174. | TheAyurvedic Formulary of India including all the parts there of | Anonymous |
| 175. | The Ayurvedic Pharmacopoeia of India including all the parts and volumes thereof | Anonymous |
| 176. | Vaidyachandrodaya | Trimallabhata |
| 177. | Vaidyachikitsasangraha(Telugu) | Raghavadasu |
| 178. | Vaidyachintamani | Vallabhacharya |
| 179. | Vaidyajivanam | Lolimbaraja |
| 180. | Vaidyakachikitsasara | Kalidasa |
| 181. | Vaidyakalpadruma | Compiled By Raghunathprasad Shukla |
| 182. | Vaidyakalpadrumamu(Telugu) | Chivukula Satya Narayana Sashtri |
| 183. | Vaidyakaprayogavijnanam | Indragani Venkateswara Sharma |
| 184. | Vaidyaka-Sangraha | Anonymous |
| 185. | Vaidyakashabdasindhu | Anonymous |
| 186. | Vaidyamalika(Malayalam) | Anonymous |
| 187. | Vaidyamanorama | Kalidas |
| 188. | Vaidyamanotsava | Jaina Shravaka Nyanasukhadasa |
| 189. | Vaidyamrita | Mulukutla Vishvanada Shastry |
| 190. | Vaidyarahasya | Vidyapati Bhisagvara |
| 191. | Vaidyaratna | Shivananda Bhatta |

| | | |
|------|--|---|
| 192. | Vaidyasaramu(Telugu) | Rayasamu Peranaryudu |
| 193. | Vaidyasarasangraha | M. S. Krishnamurthy |
| 194. | Vaidyasarvasvam | PanditaJvalaprasada Mishra |
| 195. | Vaidyashatashloki | Avadanasarasvati |
| 196. | Vaidyashiromani | Jogineni Venkatravu |
| 197. | Vaidyasudhanidhi(Avadhi) | Pandita Kanhaiyalal Agnihotri |
| 198. | Vaidyatarakam | Anonymous |
| 199. | Vaidyavallabha | Hastiruci Kavi |
| 200. | Vaidyavinoda | Shankar Sharma Bhatt |
| 201. | Vaidyayogaratnavali | Anonymous |
| 202. | Vajikarakalpadruma | Pidugu-Subbaramayya |
| 203. | Vajikaranatantramu(Telugu) | Civukula Satyanarayanashastra |
| 204. | Vanaushadhi-Chandrodaya | Chandraraj Bhandari |
| 205. | Vanaushadhi-Nidarshika | Ramsushil Singh |
| 206. | Vangasena-Samhita/Chikitsa-Sara-Sangraha | Vangasena |
| 207. | Vastugunadipika(Telugu) | Yerra Venkatasvamy |
| 208. | Vastugunamahodadhi(Telugu) | Anonymous |
| 209. | Vastugunapradarshini(Telugu) | Edited By: Dhavaleshvarapu Somalingacaryulu |
| 210. | Vastugunapradipika | Grandhi Venkatasubbaraya Sharma |
| 211. | VidehaNimi-Tantra | Nimi |
| 212. | Virasimhavaloka | Veerasimha |
| 213. | Vishavaidyajyotsnika | Anonymous |
| 214. | Vishavaidyasarasamuchchayam | Cherukulappurath Krishnan Namboodiri |
| 215. | Vishvanathachikitsa/Chikitsarnava | Vishvanathsen |
| 216. | Vrikshayurveda | Surapala |
| 217. | Vrikshayurveda | Parashara |
| 218. | Vrindasangraha/ Vrindamadhava/Siddhayoga | Vrinda |
| 219. | YashasviAushadhi(Marathi) | N.D. Deshpandey |
| 220. | Yogachandrika | Shri Lakshman Pandit |
| 221. | Yogachintamani | Harshakirti |
| 222. | Yogamritam(Malayalam) | Anonymous |
| 223. | Yogaratnakara | Anonymous |
| 224. | Yogaratnasamuchchaya | Chandrata |
| 225. | Yogasaram(Malayalam) | Anonymous |
| 226. | National Institute of Ayurveda Hospital Formulary | Anonymous |
| 227. | Formulary of Ayurvedic Medicine (Banaras Hindu University) | Anonymous |

Siddha System

| Sl. No. | Name of the Book (In Roman Script) | Name of Original Author |
|---------|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 18 Siddhar Sillaraikorvai | 18 Siddhars |
| 2. | Aathmaratchamirthamennum Vaithiya Sarasangiragam | 18 Siddhars |
| 3. | Agathiyar (1500) | Agathiyar |
| 4. | Agathiyar (600) | Agathiyar |
| 5. | Agathiyar Ainthu Sasthirangal | Agathiyar |

| | | |
|-----|--|------------------------------------|
| 6. | Agathiyar Anuboga Vaithiya Kalanjiam | Agathiyar |
| 7. | Agathiyar Attavanai Vaagadam | Agathiyar |
| 8. | Agathiyar Chendooram (300) | Agathiyar |
| 9. | Agathiyar Chillaraikovai | Agathiyar |
| 10. | Agathiyar Kanma Soothiram | Agathiyar |
| 11. | Agathiyar Nayana Vidhi | Agathiyar |
| 12. | Agathiyar Pallu | Agathiyar |
| 13. | Agathiyar Panneerayiram | Agathiyar |
| 14. | Agathiyar Paripooranam (400) | Agathiyar |
| 15. | Agathiyar pin (80) | Agathiyar |
| 16. | Agathiyar Rathna Churukkam | Agathiyar |
| 17. | AgathiyarVaithiya Kaviyam (1500) | Agathiyar |
| 18. | Agathiyar Vaithiya Pooranammatrum Soothiram 205 | Agathiyar |
| 19. | Agathiyar Vallathi (600) | Agathiyar |
| 20. | AnubavaVaithiya Muraigal | Rajah Sarabhoji |
| 21. | AnubogaVaithiya Brama Ragasiyam | KoshayiSwamigal |
| 22. | Anuboga Vaithiya Navaneetham (Part – II-X) | HakkimP.M.Mohamed Abdullah Sahib |
| 23. | Anuboga Vaithiya Rajarathna Cinthamani Part - I | Varadarajulu Naidu |
| 24. | Balavagadam | 18 Siddhars |
| 25. | Bogar (700) | Bogar |
| 26. | Bogar 7000 (1-7 Kaandam) | Bogar |
| 27. | Bogar Munivar Kaviyam 1000 | Bogar |
| 28. | Bogar Vaithiyam 700 | Bogar |
| 29. | Brahma Muni Karukkadai (300) | Brahma Muni |
| 30. | Chikicha-Rathna Deepam | S. Kannusamy Pillai |
| 31. | Cimittu Rathna Churukkam-360 | Dhanwanthari |
| 32. | Dhakshina Moorthi Meignanam - 1500 | Dhakshina Moorthi |
| 33. | Ennai Vaagadam | S.Arangarajan |
| 34. | Gunapadam - Muthal Paguthi | Murugesamuthaliyar |
| 35. | Gunapadam-Irandumatrum Moondraam Paguthi | R.Thiagarajan |
| 36. | Gunma Roga Chikichai Sarabendhirar Vaithiya Muraigal | Rajah Sarabhoji |
| 37. | Kailasanaathar Soothiram 201 | Kailasanathar |
| 38. | Kan Maruthuvam | Agathiyar |
| 39. | Karpini Balaroga Chikichai Sarabendhirar Vaithiya Muraigal | Rajah Sarabhoji |
| 40. | Kasa Suvasa Chikichai Sarabendhirar Vaithiya Muraigal | Rajah Sarabhoji |
| 41. | Kumbamuni Balavagadam | Agathiyar |
| 42. | Mani ManthiraVaithiya Sekaram | Egambara Jothidar |
| 43. | Maruthuva Aasaiyam | 18 Siddhars |
| 44. | Mathalai Noi Thoguthi– I-III | 18 Siddhars |
| 45. | Meganoi Nivarana Pothuneri Ennum Neerizhivu Maruthuvam | Hakkim P.M. Mohamed Abdullah Sahib |
| 46. | Meganoi Soothaganoolum Arivaiyar Cinthamani | 18 Siddhars |
| 47. | Nagamuni (200) | Nagamuni |
| 48. | Nantheeswarar Kalaignanam | Nantheeswarar |
| 49. | Natchathira Kaandam - 1200 | 18 Siddhars |

| | | |
|-----|---|------------------------------|
| 50. | Natchathira Kaandam - 1500 | 18 Siddhars |
| 51. | Nayana Roga Chikichai Sarabendhirar Vaithiya Muraigal | Rajah Sarabhoji |
| 52. | Neerizhivu Chikichai Sarabendhirar Vaithiya Muraigal | Rajah Sarabhoji |
| 53. | Noigalukku Siddha Parikaaram - Part 1-2 | M. Shanmugavelu |
| 54. | Oorvasi RasavathaCitka | 18 Siddhars |
| 55. | Patharthaguna Cinthamani | 18 Siddhars |
| 56. | Pathinen Siddhar Raja Vaithiya Bodhini | 18 Siddhars |
| 57. | Pitha Roga Cikichai Sarabendhirar Vaithiya Muraigal | Rajah Sarabhoji |
| 58. | Pulippani (500) | Pulippani |
| 59. | Sanni, Vaisoori, Paithiyam, Kuttam, Oozhinoi Thoguthi | 18 Siddhars |
| 60. | Sattamuni Vatha Kaviyam | Sattamuni |
| 61. | Siddha MaruthuvanoiThoguthi - I | 18 Siddhars |
| 62. | Siddha Maruthuvam (Pothu) | K.N. Kuppusamy Mudaliar |
| 63. | Siddha Vaithiya Thirattu | Dr. K.N. Kuppusamy Mudaliyar |
| 64. | Siddhar Kayakarpam | G. Veluchamyet.al |
| 65. | Silerpananoi, Udharanoi Thoguthi | 18 Siddhars |
| 66. | Sirorathna Vaithiya Poosanam | Anga Muthu Muthaliar |
| 67. | Suraroga Cikichai Sarabendhirar Vaithiya Muraigal | Rajah Sarabhoji |
| 68. | TharalamaniBalavaagadam | 18 Siddhars |
| 69. | The Siddha Formulary of India including all the parts thereof | Anonymous |
| 70. | The Siddha Pharmacopoeia of India including all the parts and volumes thereof | Anonymous |
| 71. | Theraiyar Kaapiyam | Theraiyar |
| 72. | Theraiyar Karisal- 300 | Theraiyar |
| 73. | Theraiyar Maha Karisal | Theraiyar |
| 74. | Theraiyar Sekarappa | Theraiyar |
| 75. | Theraiyar Thaila Varkam | Theraiyar |
| 76. | Theraiyar Tharu | Theraiyar |
| 77. | Theraiyar Vaithiyam – 1001 | Theraiyar |
| 78. | Theraiyar Yamagam | Theraiyar |
| 79. | Vaithiya Kaviyam 1500 | Agathiyar |
| 80. | Varma Marunthu Seimuraigal | Agathiyar |
| 81. | Varma Maruthuvam Sirappu | Agathiyar |
| 82. | VathanoiNithanam- 800 | 18 Siddhars |
| 83. | Vatharoga Cikichai Sarabendhirar Vaidhya Muraigal | Rajah Sarabhoji |
| 84. | Veeramamuni Nasa Kaandam | Veeramamunivar |
| 85. | Veeramamunivar Vaagada Thirattu - Part I-II | Veeramamunivar |
| 86. | Yakkobu Vaithiyam – 300 | Yakobu |
| 87. | Yugi Karisal (151) | Yugi |
| 88. | Yugi Munivar Vatha Kaviyam | Yugi |

B - UNANI TIBB SYSTEM

| Sl. No. | Name of the Book (In Roman Script) | Name of Original Author | Language |
|---------|---------------------------------------|-------------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Aab-e-Hayat | Syed Mohammad Ali Khan | Urdu |

| | | | |
|-----|---|---|---------|
| 2. | Ain-ul-Hayat | Mohammad Bin Yusuf Harwi | Arabic |
| 3. | Al Jami Li Mufradat al-Adviawa al-Aghziya Vol. 1-4 (Urdu translation) | Abd Allah ibn Ahmad al-Malaqi Ibn al-Baytar | Urdu |
| 4. | Al Qarabadeen | Hakim Mohammad Kabiruddin | Urdu |
| 5. | Al Tasreef Liman 'Ajaz 'Aan al-Taleef | Abul Qasim Zahrawi | Arabic |
| 6. | Al-Qanoon fil Tibb Vol.2-5 | Ibn Sina | Arabic |
| 7. | Amal-us-Saleheen (Qarabadeen Salehi) | Mohammad Saleh bin Mohammad Saleh Harwi | Persian |
| 8. | Asrar-e-Hikmat Vol.-1 | Abdul Aziz | Urdu |
| 9. | Asrar-ul-Atibba Vol-2 to 4 | Mohammad Abdul Majid Atiqi | Urdu |
| 10. | Bayaz Waheedi | Abdul Waheed | Urdu |
| 11. | Bayaz-e-Atibba | Ghulam Mohiuddin Chughtai | Urdu |
| 12. | Bayaz-e-Kabir Vol. II | Hakim Mohammad Kabiruddin | Urdu |
| 13. | Bayaz-e-Karimi | Mirza Mohammad Nazeer | Urdu |
| 14. | Bayaz-e-Nooruddin Vol.1 | Maulvi Nooruddin | Urdu |
| 15. | Dastoor-al-Atibba Vol.2 | Mohammad Hasan Qarshi | Urdu |
| 16. | Dastoor-ul-Ilaj | Sultan Ali Khurasani | Persian |
| 17. | Dastoor-ul-Ilaj | Ikram Raza Khan | Urdu |
| 18. | Delhi Ka Sahih Matab | Khwaja Rizwan Ahmad | Urdu |
| 19. | Ghina Muna | Abu al-Mansoor Hasan bin Nooh Qumari | Urdu |
| 20. | Haziq | Mohammad Ajmal Khan | Urdu |
| 21. | Ikhtiyarat-i Badi'i | Ali bin al-Husain al-Ansari (alias Zayn al-Attar) | Arabic |
| 22. | Ikseer Azam Vol.1-4 | Mohammad Azam Khan | Persian |
| 23. | Ikseer Kushtajaat | Ghulam Nabi | Urdu |
| 24. | Ikseerul Amraz | Syed Alamdar Hussain | Urdu |
| 25. | Ilaj-al-Amraz | Hakim Shareef Khan | Urdu |
| 26. | Ilaj-ul-Ghuraba | Ghulam Imam | Urdu |
| 27. | Intekhab-e-Jaleel | Jaleel Ahmad Ansari | Urdu |
| 28. | Jami-al-Hikmat | Mohammad Hasan Qarshi | Urdu |
| 29. | Kamil al Sana'a al-Tibbiya Vol. 1 & 2 | Ali Bin Abbas Majoosi | Arabic |
| 30. | Khazain-ul-Advia Vol. set (1-8) | Najmul Ghani Rampuri | Urdu |
| 31. | Khazain-ul-Mulook | Shamsuddin | Persian |
| 32. | Khulasat-ul-Hikma | Meer Mohammad Husain Khan | Persian |
| 33. | Khulasat-ul-Tajarib | Baha al-Daula Noor Bakhshi | Persian |
| 34. | Kifaya-e-Mansoori | Mansoor bin Mohammad | Persian |
| 35. | Kimiya-e-Ishrat | Mohammad Sadique | Persian |
| 36. | Kitab al Mansoori (Urdu Translation) | Mohammad Ibn Zakariya Razi | Urdu |
| 37. | Kitab al Umda fil Jarahat Vol.1-2 (Urdu translation) | Amindaula Abu Faraz ibn al-QuafMasihi | Urdu |
| 38. | Kitab al-Aghziya (Urdu Translation) | Abdul Malik Bin Zuhr | Urdu |
| 39. | Kitab Al-Mukhtarat fit-Tibb Vol. 2-4 | Ibn Hubl Baghdadi | Arabic |

| | | | |
|-----|---|-------------------------------|------------------|
| 40. | Kitab-al-Hawi (Vol: 1-23) | Mohammad Ibn Zakariya Razi | Arabic |
| 41. | Kitab-al-Taiseer (Urdu Translation) | Abu Marwan Ibn Zuhr | Urdu translation |
| 42. | Kitab-al-Taklis | Hakim Mohammad Kabiruddin | Urdu |
| 43. | Kitab-ul-Abdal | Mohammad Ibn Zakariya Razi | Arabic |
| 44. | Lubb-ul-Mujarrabat | Dilbar Hasan Khan Bhatti | Urdu |
| 45. | Madan-al-Aksir | Hakim Mohammad Firozuddin | Urdu |
| 46. | Madin al-Shifa Sikandar Shahi (Mujarrabat Tibb-ul-Sikandari) | Bahwa Bin Khawas Khan | Persian |
| 47. | Majma-ul-Baharin | Haider Ali Khan | Urdu |
| 48. | Majmua-e-Baqai Vol. 1-2 | Mohammad Ismail | Persian |
| 49. | Makhzan al-Advia | Meer Mohammad Husain Shirazi | Persian |
| 50. | Makhzan Sulaimani | Mohammad Shamsuddin | Urdu |
| 51. | Makhzan-al-Mufradat | Hakim Mohammad Kabiruddin | Urdu |
| 52. | Makhzan-ul-Taleem | Mohammad Sadiq Ali Khan | Persian |
| 53. | Mamulaat-e-Sheerani | Ghulam Husain Sheerani | Urdu |
| 54. | Manafi-al-Aghdhiyahwa-Daf'ul Madarriha | Mohammad Ibn Zakariya Razi | Arabic |
| 55. | Marj-ul-Bahrain Vol. 1-3 | Abdul Hamid | Urdu |
| 56. | Matab-Alvi Khan | Alvi Khan | Persian |
| 57. | Matab-e-Amali | Jameel Khan | Urdu |
| 58. | Meezan-ul-Tibb (Urdu translation) | Mohammad Akbar Arzani | Urdu |
| 59. | Miftah-al-Khazain | Hakim Kareem Baksh | Urdu |
| 60. | Miftah-ul-Hikmat Vol. 1-2 | Mohammad Shareef Khan | Urdu |
| 61. | Minhaj al-Dukan waDustur al-Aayan Vol. 1-2 | Abul Mina Attar Israili | Urdu |
| 62. | Misbah-ul-Hikmat | Mohammad Firozuddin | Urdu |
| 63. | Muheet-e-Azam Vol.1-4 | Mohammad Azam Khan | Persian |
| 64. | Mujarrabat Akbari | Mohammad Akbar Arzani | Persian |
| 65. | Mujarrabat Azeezi | Abdul Halim | Persian |
| 66. | Mujarrabat Sultani Vol. 1-4 | Mohammad Yar Khan | Urdu |
| 67. | Mujarrabat Waliullah | Mohammad Waliullah Khan | Urdu |
| 68. | Mujarrabat-e-Luqmani | Abdul Raheem | Urdu |
| 69. | Mujarrabat-e-Razai | Syed Raza Hasan Jafri | Persian |
| 70. | Pharmacopoeia of Hospital of Integrated Medicine | Dr V. Narayanswami | English |
| 71. | Pocket IlmuAdvia (Tibbi Diary) | Mohammad Ibrahim Nadwi | Urdu |
| 72. | Qarabadeen Azam | Mohammad Azam Khan | Urdu |
| 73. | Qarabadeen Hamidya | Syed Abdul Hamid | Urdu |
| 74. | Qarabadeen Ibn Tilmiz | Ibn Tilmiz | Arabic |
| 75. | Qarabadeen Jadid | Hakim Abdul Hafeez | Urdu |
| 76. | Qarabadeen Kabir | Meer Mohammad Husain Sheerazi | Urdu |
| 77. | QarabadeenKaukabi aur MujarrabatShaukati | Yaar Mohammad Khan Kaukab | Urdu |
| 78. | Qarabadeen Mufeed-e-Aam | Mohammad Shareef Hyderabad | Urdu |
| 79. | Qarabadeen Najmul Ghani | Najmul Ghani Khan | Urdu |
| 80. | Qarabadeen Qadri | Mohammad Akbar Arzani | Urdu |

| | | | |
|------|--|--|---------|
| 81. | Qarabadeen Raheemi | Rahim Khan Bhahadur | Urdu |
| 82. | Qarabadeen Razai | Mohammad Hadi Raza Khan | Urdu |
| 83. | Qarabadeen-e-Azam wa Akmal | Mohammad Azam Khan | Persian |
| 84. | Qarabadeen-e-Haziq | Mohammad Hasan Haziq | Persian |
| 85. | Qarabadeen-e-Jalali | Jalaluddin Amrohi | Persian |
| 86. | Qarabadeen-e-Lutfi | Abdul Sattar Lutfi | Urdu |
| 87. | Qarabadeen-e-Majeedi | Tibbi Conference | Urdu |
| 88. | Qarabadeen-e-Sarkari | Indian Medicine Department, Govt. of AP | Urdu |
| 89. | Qarabadeen-e-Zakai | Zakaullah Khan | Persian |
| 90. | Qarabdeen-e-Ehsani | Mohammad Ahsan Ali Khan | Urdu |
| 91. | Qarabdeen-e-Shifai (Urdu translation) | Muzaffar bin Mohammad | Urdu |
| 92. | Rumooz-e-Azam Vol.1-2 | Mohammad Azam Khan | Persian |
| 93. | Rumooz-ul-Atibba Vol.1- 2 | Mohammad Firozuddin | Urdu |
| 94. | Sadri Mujarrabat Vol. 1-5 | All India Vedic Unani Tibbi Conference | Urdu |
| 95. | Sanat-al-Taklis | Hakim Abdul Hafeez | Urdu |
| 96. | Shifa-ul-Abdaan | Wajid Ali | Persian |
| 97. | Silk-e-Marwareed | Mohammad Hasan Qarshi | Urdu |
| 98. | Tajarribaabilmufradat | Mirza Imamuddin | Urdu |
| 99. | Takmeel-al-Bahrain (Vol. 4 & 5) | Ahmad Ali Khan | Urdu |
| 100. | Taksheef-ul-Hikmat | Mohammad Salim Khan | Persian |
| 101. | Tarjuma-e-Kabeer Vol.1-4 | Mohammad Kabiruddin | Urdu |
| 102. | Tauzeeh-ul-Advia | Mohammad Hasan Haziq Meeruthi | Urdu |
| 103. | Tazkira-e- Jaleel | Hafiz Jaleel Ahmad Ansari | Urdu |
| 104. | Tazkirat-ul-il al-Babwa-Jamelil Ajab-il-Ujab Vol. 1-3 | Daud Antaki | Arabic |
| 105. | Tazkirat-ul-Kuhaleen (Urdu Translation) | Ali bin Isa al-Kuhaal | Urdu |
| 106. | The National Formulary of Unani Medicine including all the parts thereof | Anonymous | English |
| 107. | The Unani Pharmacopoeia of India including all the parts and volumes thereof | Anonymous | English |
| 108. | Tohfatul-ul-Momineen | Meer Mohammad Momin | Persian |
| 109. | Ujala Nafia | Mohammad Shareef Khan | Persian |
| 110. | Yaqooti | Wakeel Ahmad | Persian |
| 111. | Zaad-e-Ghareeb (Urdu Translation) | Sadiq Ali Khan | Urdu |
| 112. | Zakhira Khwarzam Shahi Vol 1-10 (Urdu Translation) | Ismail bin Al-Hasan Mohammad Ahmad Al-Husni al-Jurjani (translated by Hadi Hasan Khan) | Urdu". |

[F. No. T-11011/6/2024-DCC (AYUSH)]

Dr. KOUSTHUBHA UPADHYAYA, Adviser (Ayurveda)

Foot note.-The First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 was first amended by Act No. 68 of 1982 dated 01st February, 1983 and last amended vide notification number S.O. 5285(E), dated 4th December, 2024.